

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II

SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 15TH MAY, 1998

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

New Delhi the 15TH May 1998


NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification number S.O. 216(E) dated the 30th March, 1993 issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 3, Technical educational project for women, comprising an Industrial Training Institute and a Polytechnic at Village Shirgaon, near Ratnagiri, Maharashtra for women from economically weaker sections of Maharshi Karve Stree Shikshan Samstha, Karve Nagar, Pune-411052 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1993-94 which was extended for a period of three more years i.e. assessment years 1996-97, 1997-98 and 1998-99 vide S.O. 723(E) dated the 17th August, 1995;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

AND WHEREAS the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Technical educational project for women, comprising an Industrial Training Institute and a Polytechnic at Village Shirgaon, near Ratnagiri, Maharashtra for women from economically weaker sections of Maharshi Karve Stree Shikshan Samstha, Karve Nagar, Pune-411052, at the estimated cost of rupees one hundred seven lakhs sixty five thousand only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing from assessment year 1999-2000.


(V.K. SEHGAL)

Deputy Secretary to the Government of India

No. 10593
F.No. NC-29/98

भारत के राजपत्र अध्याख्यान भाग II खण्ड 3, उपखण्ड 1111 में

दिनांक 15 मई 1998 को प्रकाशित ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 1998

अधिसूचना


संख्या — 1301 केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 का 431 की धारा 35 क म के स्पष्टीकरण के खण्ड 131 के साथ पठित उपधारा 111 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 30 मार्च, 1993 की अधिसूचना सं० संख्या 216 131 द्वारा महर्षि ज्योत्सनी शिक्षण संस्था, ज्योत्सनी नगर, पुणे-411052 द्वारा महाराष्ट्र, एल्हासगिरि में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं हेतु शिर्मांव ग्राम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा एक पौष्टिकवर्गीय वस्ति तस्वीकी शिवा परियोजना को एक पत्र परियोजना या स्कीम के रूप में कर विचारण वर्ष 1993-94 से आरम्भ होने वाले तीन कर विचारण वर्षों के लिए क्रम सं०-3 पर विविर्दिष्ट किया था, जिसे दिनांक 17 अगस्त, 1995 के संख्या 723 131 के द्वारा विचारण वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 को समाप्त होने वाले तीन और विचारण वर्षों के लिए बढ़ाया गया था ।

और इस परियोजना अथवा स्कीम के 6: वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ।

और राजस्व विभाग ने यह समाधान होने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 क के उप नियम 151 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष तक की अवधि के लिए विविर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 का 431 की धारा 35 क म के स्पष्टीकरण के खण्ड 131 के साथ पठित उपधारा 111 द्वारा प्रदत्त विधियों का प्रयोग करते हुए महर्षि ज्योत्सनी शिक्षण संस्था, ज्योत्सनी नगर, पुणे-411052

द्वारा महाराष्ट्र रत्नागिरि के ग्राम शिरगांव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा एक पोलिटेक्नीक सहित तकनीकी शिक्षा परियोजना को मात्र एक सौ सात लाख पैसठ हजार रुपये की अनुमानित लागत पर परियोजना या स्कीम को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले आगे के तीन निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।



।वी०के०बहगल।

उप सचिव, भारत सरकार

सं० 10593...

फा० सं० रा० सं०-29/98